



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 2011/पौष 14, 1932

No. 2]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 2011/PAUSA 14, 1932

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 2(अ).—केन्द्रीय सरकार वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्त्र समिति नियम, 1965 में और संशोधन करने के प्रयोजन से कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो कि इनसे संभवतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त धारा की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार प्रकाशित करती है तथा इस आशय की सूचना देती है कि नीचे दिए गए प्रस्तावित संशोधन के संबंध में आपत्तियां अथवा सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।

इस संबंध में आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, तो उसे सचिव, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110107 को भेजें।

इस प्रकार से विनिश्चित अवधि से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति से कोई आपत्तियां अथवा सुझाव प्राप्त होते हैं तो उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) ये नियम वस्त्र समिति (संशोधन) नियम, 2011 कहलाए जाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने अंतिम रूप से प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे।

2. वस्त्र समिति नियम, 1965 के नियम 34 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“34. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को शक्तियों का प्रदत्तीकरण :

समिति एक संकल्प के द्वारा नियम 33 के उप-नियम (1) के तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को, उचित समझे जाने की सीमा तक इसकी शक्तियां प्रदत्त कर सकती है।”

[फा. सं. 16/3/2010-ए एंड एमएमटी]

मोनिका एस. गर्ग, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 321 दिनांक 27 फरवरी, 1965, भारत के राजपत्र 1965 में प्रकाशित किए गए थे और उसके बाद अधिसूचना सं. सा.का.नि. 459, दिनांक 9 मई, 1981, सा.का.नि. 514, दिनांक 1 जून, 1985, भारत के राजपत्र 1985, सा.का.नि. 21, दिनांक 27 नवम्बर, 1990, भारत के राजपत्र 1990 और सा.का.नि. (अ), दिनांक 22 जनवरी, 1996, सा.का.नि. 608(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2000 भारत के राजपत्र द्वारा इनमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2011

G.S.R. 2(E).—The following draft further to amend the Textiles Committee Rules, 1965, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by Section 22 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963) is hereby published, as required by

sub-section (1) of said Section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given to invite objections or suggestions in respect of the proposed amendment as shown below, to be received by the Ministry of Textiles within a period of 45 days from the date of publication of this Notification.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Textiles, Udyog Bhavan, New Delhi-110107.

Any objections or suggestions that may be received from any person with respect to the said draft rules before the period so specified, shall be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called Textiles Committee (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles Committee Rules, 1965 for rule 34, the following shall be substituted, namely :—

“ 34. Delegation of Powers to Chairman, Vice-Chairman and Secretary :

The Committee may by a resolution, delegate its powers under sub-rule (1) of rule 33 to the Chairman, Vice-Chairman and the Secretary to the extent it considers expedient.”

[F. No. 16/5/2010-A & MMT]

MONIKA S. GARG, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal rules were published vide number G.S.R. 321 dated the 27th February, 1965 and subsequently amended by number G.S.R. 459 dated the 9th May, 1981, G.S.R. 514 dated the 1st June, 1985, G.S.R. 21 dated the 27th November, 1990, G.S.R. (E) dated the 22nd January, 1996, G.S.R. 608 (E) dated the 13th July, 2000.